

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

डब्ल्यू-6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर, फोन नं. 0291-2430440, 2636572 ई मेल bter.jodhpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 5 (101) प्राशिमं/सामान्य/2024-25/ 2128

दिनांक 8 MAY 2024

प्रधानाचार्य,

समस्त राजकीय/निजी सम्बद्ध पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
द्वारा ई मेल।

विषय :- सत्र 2024-25 के लिये मण्डल से संबद्धता नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन आवेदन करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2024-25 के लिये मण्डल से संबद्धता नवीनीकरण हेतु आवेदन SSO में HTE (BTER AFFILIATION) पोर्टल पर दिनांक 09.05.2024 से 22.05.2024 तक किया जा सकता है।

1. आवेदन करने हेतु User Manual आपको E-mail किया जा रहा है। Manual में दिये गये निर्देशानुसार आपकी SSOID से आवेदन करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें। आवेदन नहीं करने की अवस्था में आपके महाविद्यालय का संबद्धता नवीनीकरण नहीं किया जायेगा एवं संबद्धता नवीनीकरण नहीं होने के कारण निदेशालय द्वारा आपके महाविद्यालय को नवीन प्रवेश की Seat Matrix में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा मण्डल की आगामी परीक्षाओं में आपके महाविद्यालय के नियमित/बाह्य विद्यार्थियों को प्रविष्ट होने से रोक दिया जायेगा। ध्यान रहे ऑनलाईन आवेदन करने पर ही संबद्धता नवीनीकरण आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।


2. आपको इसके साथ ही आपके E-mail पर एक Google Form Share किया जा रहा है। Google Form आपको पूर्ण भरकर **Submit** करना है।

कृपया Google Form दिनांक 09.05.2024 से 22.05.2024 तक आवश्यक रूप से Submit करें। इसके अभाव में आपके कॉलेज का संबद्धता नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं होगा।

3. शुल्क सहित ऑन लाईन आवेदन करने के पश्चात् पूर्ण रूप से भरे हुए संबद्धता आवेदन के संलग्न प्रारूप 1, 2, 3 व 4 स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 29.05.2024 तक आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें। लिफाफे पर संबद्धता हेतु आवेदन व संस्थान कोड व नाम अवश्य अंकित करें।

नोट:- कृपया आवेदन शुल्क **HTE Portal** पर ऑनलाईन माध्यम से जमा करावें।

संलग्न :- User Manual (ऑनलाईन लिंक पर उपलब्ध), Google Form एवं सम्बद्धता नवीनीकरण प्रारूप।


संयुक्त निदेशक सी.डी.सी.

क्रमांक :- एफ 5 (101) प्राशिमं/सामान्य/2024-25/

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक (ई-2), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
2. संयुक्त निदेशक (रजिस्ट्रार), प्राशिमं, जोधपुर को भेजकर लेख है कि संबद्धता नवीनीकरण नहीं करवाने वाले संस्थानों के विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म जारी नहीं किये जावें।
3. श्री सतीश नाथ, नोडल अधिकारी को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करवाने हेतु।

संयुक्त निदेशक सी.डी.सी.